



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 29—नवम्बर 4, 2005 (कार्तिक 7, 1927)

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 29—NOVEMBER 4, 2005 (KARTIKA 7, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 30 सितम्बर 2005

सं. ए-19011/5/01-प्रशा. 1--श्री जगदीश सिंह, भा. व. से.
(एम टी: 87) जो संयुक्त सचिव, संघ लोक सेवा आयोग (निदेशक स्तर) के रूप में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे और दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अर्थात् 04 अक्टूबर, 2004 से 30 सितम्बर, 2005 तक बर्मिन्घम विश्वविद्यालय (यू. के.) में लोक सेवा में एम बी ए कर रहे थे, उनको आयोग के कार्यालय द्वारा 30.09.2005 के अपराह्न से कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है।

2. श्री जगदीश सिंह को निदेश दिया जाता है कि वे अपने मूल संवर्ग अर्थात् प्रधान मुख्य वन संरक्षक, त्रिपुरा सरकार, अगरतला को रिपोर्ट करें।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-38012/2/05-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग में उप सचिव के रूप में कार्यरत, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री राजेन्द्र बिष्ट की अधिवर्षिता आयु हो जाने पर उन्हें दिनांक 30.09.2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 07 अक्टूबर 2005

सं. डीपी/पर्स.1/2005/0141/3/3/96--राष्ट्रपति ने सुश्री बीना रायजादा, लोक अभियोजक, के. अ. ब्यूरो को दिनांक 29.07.2005 अपराह्न से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में वरिष्ठ लोक अभियोजक के रूप में अगले आदेश तक नियुक्त किया है।

शचिन बैजल
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स.1/2005/0142/3/23/2003--केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति आधार पर लोक अभियोजक के रूप में तैनात श्री शशि कांत वर्मा, सहायक अभियोजन अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार की सेवाएं, 30.09.2005 (अपराह) से समयपूर्व प्रत्यावर्तन पर, अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार को वापस सौंपी जाती है।

शचिन बैजल
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 13 अक्टूबर 2005

सं. डीपी/पर्स.1/2005/0143/3/50/96--राष्ट्रपति ने श्री चन्द्र दत्त, वरिष्ठ लोक अभियोजक, के. अ. ब्यूरो को 29.09.2005 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उप-विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।

शचिन बैजल
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 2005

सं. 2/36/05-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में अनुभाग अधिकारी श्री डाल चंद को अवर सचिव के पद पर वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- में स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर दिनांक 05.10.2005 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

माँगे लाल
विशेष कार्य अधिकारी

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 अक्टूबर 2005

सं. ओ.टो-3293/2005-डी.सी.कार्मिक-1--श्री मोतीराम, उप कमाण्डेंट (इरला-3293) 63 बटालियन (82 बटालियन में स्थानान्तरण के अन्तर्गत) केरिपुबल, का दिनांक 20.09.2005 को 2115 बजे, जो कि बेस अस्पताल-1, केरिपुबल, दिल्ली में उपचाराधीन थे, की लम्बी बीमारी के कारण गृह निवास पर, आराम अवधि के दौरान मृत्यु हो गयी है, को खेद सहित अधिसूचित करती है। तदनुसार इन्हें इस बल की नफरी से उसी तिथि अर्थात् दिनांक 20.09.2005 (अपराह) से निकाला जाता है।

जे. एन. शर्मा
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-03, दिनांक 06 अक्टूबर 2005

सं. ए-17011/37(बी.-54)/2004.प्रशा.1--इस निदेशालय के श्री विजोए कृष्णा मित्रा, संयुक्त निदेशक, अपनी अधिवर्षिता की आयु होने

पर दिनांक 30.09.2005 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

कमलेश डेका
निदेशक, पुलिस दूरसंचार

दिनांक 07 अक्टूबर 2005

सं. ए-17011/35(एम-68)/2004.प्रशा.1--इस निदेशालय के श्री मगनदेव सिंह पोपली, अपर निदेशक, अपनी अधिवर्षिता की आयु होने पर दिनांक 30.09.2005 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

कमलेश डेका
निदेशक, पुलिस दूरसंचार

सं. ए-17011/34(आर-68)/2004.प्रशा.1--इस निदेशालय के श्री राजेन्द्र प्रकाश गुप्ता, अतिरिक्त सहायक निदेशक, अपनी अधिवर्षिता की आयु होने पर दिनांक 30.09.2005 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

कमलेश डेका
निदेशक, पुलिस दूरसंचार

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.), केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 13 अक्टूबर 2005

सं. स्था/ह व रो/ई IV पें/110--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं:--

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्त होने की तिथि
1.	श्रीमति के. अक्काम्माल	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	30.09.2005 अ. (अधिवर्षिता)
2.	श्री टी. ए. सेवास्तिन	लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	30.09.2005 अ. (अधिवर्षिता)
3.	श्रीमति एस. राजलक्ष्मी	सहायक लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	30.09.2005 अ. (अधिवर्षिता)

एम. राजन
उप महालेखाकार (प्रशासन)

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2005

सं. ए-19011/383/2001-स्था.ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्रीमती बी. आर. रामटेके, सहायक अवरक प्रशासन अधिकारी

को भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर में दिनांक 23.08.2005 (पूर्वाह्न) से उप
अयस्क प्रसाधन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस के बातव
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

नागपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2005

सं. ए-19011/393/2004-स्था. ए.पी.पी.--श्री व्ही. एस. मुर्ती, वरिष्ठ
खनन भूवैज्ञानिक, भारतीय खान ब्यूरो, बार्धक्य आयु प्राप्त होने पर
सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 30.09.2005 (अपराह्न) से कार्यभार
मुक्त हो गए हैं।

ए. एन. नन्दनवार
सहायक प्रशासन अधिकारी

सं. ए-19011/405/2005-स्था. ए.पी.पी.--श्री एस डब्ल्यू खेडेंकर,
उप खनिज अर्थशास्त्री, भारतीय खान ब्यूरो, बार्धक्य आयु प्राप्त होने पर
सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 30.09.2005 (अपराह्न) से कार्यभार
मुक्त हो गए हैं।

ए. एन. नन्दनवार
सहायक प्रशासन अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 30 सितम्बर 2005

सं. 20/3(2)/2004-सीसीएस/35--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री डी.
नारायणन नायर, मुख्य प्रशासन अधिकारी (वेतनमान रु.
12000--16500), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई को दिनांक
08.09.2005 के पूर्वाह्न से भावी आदेश होने तक उसी अनुसंधान केन्द्र में
प्रधान कार्मिक प्रभाग (वेतनमान रु. 12000--16500) के पद पर
नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.
अवर सचिव

परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

कोलकाता-700064, दिनांक 28 सितम्बर 2005

सं. वीईसीसी/पदोन्नति (अगस्त)/2005/2758--राष्ट्रपति प्रसन्नता पूर्वक
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के
निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र पर (रु.
14300-400-18300) के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (एफ) के
पद पर अस्थायी रूप से काम करने के लिए 1 अगस्त 2005 के पूर्वाह्न से
अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतनमान
1.	श्री टी. के. चक्रवर्ती	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	रु. 12000-375-16500/-
2.	श्री एम. एस. डे	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	रु. 12000-375-16500/-

एन. श्रीनिवास राव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 2005

सं. निसेसंप्रनि/प्र/9(230)/2005-भर्ती/खंड VI/1054--निदेशक,
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्द्वारा
श्री सी. सामंताराय, सहायक कार्मिक अधिकारी को इस निदेशालय में रु.
7500-250-12000 के वेतनमान में दिनांक 21.09.2005 (पूर्वाह्न) से
अगले आदेशों तक प्रशासन अधिकारी-II के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. के. वी. नायर
प्रशासन अधिकारी-III

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

मुंबई-400705, दिनांक 13 अक्टूबर 2005

सं. बीआर/951/024/1672--श्री पी. मधुसूदन ने अधिवर्षिता के
कारण दिनांक 31.08.2005 (अपराह्न) से वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता
ग्रेड 'एच' के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

जे. के. घोष
मुख्य कार्यकारी

कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आशीष एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2005

सं. एल.सी./560(3)/9282/3702--कम्पनी अधिनियम, 1956 की
धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की
तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स आशीष एक्सपोर्ट
इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो
कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो
जायेगी।

बी. के. बन्सल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सनतोष फाइनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2005

सं. एल.सी./560(3)/17759/3706--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सनतोष फाइनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

बी. के. बन्सल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स तापरिया इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2005

सं. एल.सी./560 एस.ई.एस./20773/3718--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स तापरिया इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

बी. के. बन्सल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिवा एलूम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2005

सं. एल.सी./560(3)/20674/3726--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स शिवा एलूम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

बी. के. बन्सल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आकृति एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2005

सं. एल.सी./560(3)/20969--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स आकृति एडवर्टाइजिंग

एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

बी. के. बन्सल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आकृति फिलम्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2005

सं. एल.सी./560(3)/20971/--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स आकृति फिलम्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

बी. के. बन्सल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मलायड फार्मस्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2005

सं. एल.सी./560(3)/26344/3738--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स मलायड फार्मस्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

बी. के. बन्सल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पी. जी. ए. स्ट्याक ब्रोर्कस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2005

सं. एल.सी./560(3)/25018/3740--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स पी. जी. ए. स्ट्याक ब्रोर्कस प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

बी. के. बन्सल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पायस ग्रीन फारेस्ट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

सं. एल.सी./560(3)/23365/3797--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स पायस ग्रीन फारेस्ट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

बी. के. बन्सल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विभा फूड्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

सं. एल.सी./560(3)/4157/3801--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स विभा फूड्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

बी. के. बन्सल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नारा फूड्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

सं. एल.सी./560(3)/4156/3805--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स नारा फूड्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

बी. के. बन्सल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेन्चुरी केनवास फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

सं. एल.सी./560(3)/8682/3809--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सेन्चुरी केनवास फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो

कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

बी. के. बन्सल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मधुबन फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

सं. एल.सी./560(3)/4155/3813--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स मधुबन फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

बी. के. बन्सल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बेरिना मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कोलकाता-700020, दिनांक अक्टूबर 2005

सं. आईपीसी/560/मास्टर फाइल/भाग-1--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स बेरिना मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

नौबत सिंह
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

शिलांग-793001, दिनांक 14 अक्टूबर 2005

सं. क.र./शिला/एसइएस/2005/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के तहत सूचना दी जाती है कि यहां लिखित दिनांक से तीन महीने के बाद निम्नलिखित 214 (दो सौ चौदह) कम्पनियों का नाम जब तक कारण दर्शाया ना जाए उक्त अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार उनके नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिये जाएंगे:--

क्र. कम्पनी पंजी. कम्पनी नाम व पता
सं. सं.

1	2	3
1.	02.03721	मैसर्स ईस्टर्न लिंक प्राइवेट लिमिटेड
2.	12-04661	मैसर्स लोकतक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
3.	02-02977	मैसर्स नार्थ ईस्टर्न पोलीपैक प्राइवेट लिमिटेड
4.	02-04976	मैसर्स अम्बालिका हायर पर्चेज कम्पनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
5.	02-03789	मैसर्स बिडिआर लाइम व केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
6.	14-06785	मैसर्स यान्त्रिक व एसोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
7.	58-03167	मैसर्स ज़ोरम गल्वेनाइज कर्गुगेषन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
8.	02-02066	मैसर्स गेटवेल सिरंजीस लिमिटेड
9.	02-01414	मैसर्स बजरंगबली रोलर फ्लौर मिल्स लिमिटेड
10.	02-01355	मैसर्स बजरंगबली स्टील कम्पनी लिमिटेड
11.	02-04967	मैसर्स हिमालय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
12.	13-06999	मैसर्स एलेना डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
13.	13-06998	मैसर्स नार्थ ईस्ट हस्पताल प्राइवेट लिमिटेड
14.	13-06930	मैसर्स एफडब्ल्यू फेरों टेक प्राइवेट लिमिटेड
15.	02-03035	मैसर्स जि. के. कनस्ट्रक्सन प्राइवेट लिमिटेड
16.	02-03887	मैसर्स पदम केरियर व ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
17.	02-05207	मैसर्स टी मानस वेयरहाउस प्राइवेट लिमिटेड
18.	23-04169	मैसर्स भीष्मक प्लाइ प्राइवेट लिमिटेड
19.	23-03636	मैसर्स एहीसिकु टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
20.	02-04738	मैसर्स चित्रकूट बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
21.	02-05265	मैसर्स आरोहन टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
22.	02-04910	मैसर्स ग्रीन फोरस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
23.	02-04167	मैसर्स सैरा प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
24.	02-06221	मैसर्स फेयर व्यू ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
25.	02-05181	मैसर्स टच लैन मर्केटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
26.	02-05126	मैसर्स एवरग्रीन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
27.	02-06384	मैसर्स बारपेटा रोड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
28.	02-04530	मैसर्स मंगोलिया ट्रेवल्स व कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
29.	02-07103	मैसर्स ट्राजेट ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
30.	02-04091	मैसर्स नार्थ ईस्ट आध्यात्मिक प्राइवेट लिमिटेड
31.	02-04147	मैसर्स शीमा केमिकल्स व एलाइड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
32.	02-02358	मैसर्स मयूर आयरन व स्टील कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
33.	02-02406	मैसर्स पोलीपैक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
34.	02-07577	मैसर्स केशर कनस्ट्रक्सन्स प्राइवेट लिमिटेड
35.	02-06174	मैसर्स केमटेक व रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
36.	02-03114	मैसर्स राकमैन्स प्लाइ प्राइवेट लिमिटेड
37.	02-05321	मैसर्स शिवम टी प्राइवेट लिमिटेड
38.	02-04453	मैसर्स अम्बिका विनीस प्राइवेट लिमिटेड
39.	23-04161	मैसर्स मोपया टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड
40.	13-06222	मैसर्स शोर्स शाफ्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
41.	02-07083	मैसर्स अंकित कोचिंग इन्स्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड
42.	02-07000	मैसर्स रामधेनु मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
43.	02-04329	मैसर्स मरकरी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
44.	02-04562	मैसर्स गरीमा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
45.	13-06679	मैसर्स हेमिलटन एन्टरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
46.	13-06777	मैसर्स डिटिएलजे कनस्ट्रक्सन्स व सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड
47.	02-05151	मैसर्स बिज़नेट एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
48.	02-04817	मैसर्स नार्थ कामरूप अलबटराश इनवेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
49.	02-03242	मैसर्स वि. बी. धुवाकावाला व सन्स प्राइवेट लिमिटेड
50.	02-04601	मैसर्स शुभम पोली प्लास्टिक प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड
51.	14-06562	मैसर्स एटोटी टी प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड
52.	02-03025	मैसर्स सनबीम डीजल्स प्राइवेट लिमिटेड
53.	02-05426	मैसर्स सिटी मेटर्नटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
54.	02-03063	मैसर्स न्यूएज डीजल्स प्राइवेट लिमिटेड
55.	13-05320	मैसर्स कोलनेल शिशुपाल सेक्यूरिटी कनसल्टेन्सी (सर्विसेस) प्राइवेट लिमिटेड
56.	02-04491	मैसर्स पी. डी. इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
57.	02-03895	मैसर्स द्विजाचित्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
58.	23-02591	मैसर्स अरुणाचल रेजिन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
59.	14-03638	मैसर्स प्रीत एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
60.	23-05190	मैसर्स लोपन टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
61.	02-01545	मैसर्स मेफी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
62.	02-06036	मैसर्स डुबिरी डैग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
63.	02-02985	मैसर्स राज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
64.	02-03556	मैसर्स लक्ष्मी पेपर कौनस व ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
65.	02-03557	मैसर्स लक्ष्मी पेपर कर्गुगेटल बाक्स मेन्यूफेक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड
66.	02-01142	मैसर्स एम. के. गुहा व सन्स प्राइवेट लिमिटेड
67.	02-06241	मैसर्स श्री राधे श्याम सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
68.	13-06191	मैसर्स लोड्री लिंग्गो शा कम विनीर प्राइवेट लिमिटेड
69.	02-06020	मैसर्स गोल्ड लिंक ट्रेडिंग व सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
70.	02-02651	मैसर्स एसीबी केमिकल्स व फारमशियूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
71.	14-02008	मैसर्स कोन्याक फारेस्ट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
72.	02-06148	मैसर्स नार्थ ईस्टर्न रिसोर्स सर्वे व कनसल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
73.	02-02890	मैसर्स ओमेगा जोरहट प्रेस प्राइवेट लिमिटेड
74.	02-02711	मैसर्स सेंटिनेल डैली प्राइवेट लिमिटेड
75.	02-04264	मैसर्स अनुपम शेयर्स व सेक्यूरिटीस प्राइवेट लिमिटेड
76.	14-02320	मैसर्स वर्जिन फारेस्ट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
77.	14-02167	मैसर्स ब्लू हिल लम्बरर्स प्राइवेट लिमिटेड
78.	14-01399	मैसर्स दीमापुर रोलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
79.	02-01810	मैसर्स पिकोइ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
80.	02-01367	मैसर्स आफसेट प्रिन्टर प्राइवेट लिमिटेड
81.	02-03040	मैसर्स नीलाचल होटल प्राइवेट लिमिटेड
82.	12-04622	मैसर्स लोकतक फाइनेन्स व इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
83.	13-05161	मैसर्स मेलिंग व सूना प्राइवेट लिमिटेड
84.	02-05644	मैसर्स रायल (इण्डिया) फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
85.	02-05029	मैसर्स कामरूप फाइनेन्स व इनवेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
86.	02-03384	मैसर्स नार्थ-ईस्ट फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड
87.	02-01868	मैसर्स भारत रोडवेज कापेरेशन प्राइवेट लिमिटेड
88.	02-05336	मैसर्स स्वाती पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
89.	02-05141	मैसर्स असाम इंजिनयर्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
90.	02-05352	मैसर्स पद्माभवानी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
91.	02-05359	मैसर्स श्री महामाया टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
92.	02-03802	मैसर्स किरण निर्माण इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
93.	02-03400	मैसर्स पिंचा फाइनान्स व इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
94.	02-03335	मैसर्स महा मेघा मेल्मोवर्स प्राइवेट लिमिटेड
95.	02-02892	मैसर्स इम्फाल एगो इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
96.	02-02006	मैसर्स पोलीस्टर टेक्सटाइल लिमिटेड
97.	02-02949	मैसर्स डीटी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
98.	02-03857	मैसर्स पुष्पक टी प्राइवेट लिमिटेड
99.	02-05373	मैसर्स मिडास टी व फार्मस प्राइवेट लिमिटेड
100.	02-05864	मैसर्स टी टाप (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
101.	02-02110	मैसर्स रामेश्वरपुर टी व इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
102.	23-04504	मैसर्स नामपोंग टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
103.	02-06435	मैसर्स अक्षया कोस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
104.	02-04613	मैसर्स एयकान इंजीनीयर्स प्राइवेट लिमिटेड
105.	02-03299	मैसर्स असाम कृष्णा हेचरीज प्राइवेट लिमिटेड
106.	19-06456	मैसर्स त्रिपुरेश्वरी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
107.	02-05082	मैसर्स प्लूटस एगो प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड
108.	13-02663	मैसर्स हिल्स लैंड इनवेस्टमेंट व फाइनांस कम्पनी लिमिटेड
109.	02-01460	मैसर्स कामरूप पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
110.	02-05764	मैसर्स एम आर बी पेट्रोपू प्राइवेट लिमिटेड
111.	02-04563	मैसर्स पी एम बी पेट्रोड्रिल्लर्स प्राइवेट लिमिटेड
112.	02-05784	मैसर्स एम आर बी एन्टरप्रायजेस प्राइवेट लिमिटेड
113.	02-03402	मैसर्स ग्लोबटिक केरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
114.	02-04686	मैसर्स होर्टस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
115.	02-03815	मैसर्स श्री गणेश कास्ट लिमिटेड
116.	02-04210	मैसर्स पुष्पक टेक्स्टल्स प्राइवेट लिमिटेड
117.	02-02523	मैसर्स तीनशुक्रिया ट्रेड्समेन प्राइवेट लिमिटेड
118.	02-04622	मैसर्स श्रीराम वुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
119.	02-02564	मैसर्स पटकाइ माइनिंग व इंजीनीयरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
120.	14-02203	मैसर्स एम्पायर वुड क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
121.	14-02236	मैसर्स तिरु प्लाइवुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
122.	02-05111	मैसर्स अजोली टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	153.	23-02224	मैसर्स कामेंग स्टील वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
123.	02-04052	मैसर्स गोविन्दा डेरी लिमिटेड	154.	02-03650	मैसर्स जी के हस्पतालर्स प्राइवेट लिमिटेड
124.	02-03281	मैसर्स रिलायन्स इण्डिया फाईनान्स व लीजिना लिमिटेड	155.	02-02345	मैसर्स वरधा विनीयर्स प्राइवेट लिमिटेड
125.	02-04101	मैसर्स मगडेल कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	156.	14-02301	मैसर्स कल विनीयर्स प्राइवेट लिमिटेड
126.	02-05916	मैसर्स मिलिनियम प्रोग्रेसिव प्राइवेट लिमिटेड	157.	02-06066	मैसर्स लाइफ एन्टरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
127.	13-05917	मैसर्स मिलिनियम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	158.	02-06598	मैसर्स कोरुस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
128.	14-05583	मैसर्स शीय्देज फाईनान्स व इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	159.	02-03361	मैसर्स भेरगांव टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
129.	02-04279	मैसर्स एन आर बी प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड	160.	12-05960	मैसर्स टीम मार्केटिंग व एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
130.	14-03575	मैसर्स प्रीत फाईनान्स व इनवेस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	161.	02-05651	मैसर्स एन ई मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
131.	02-05312	मैसर्स अवंतिका प्रोजेक्ट्स व फाईनान्स प्राइवेट लिमिटेड	162.	02-05344	मैसर्स नार्थ ईस्टर्न मर्कन्टाइल प्राइवेट लिमिटेड
132.	02-06064	मैसर्स अमरनाथ फ्रेग्नेन्स प्राइवेट लिमिटेड	163.	14-02038	मैसर्स वेन उद्योग प्राइवेट लिमिटेड
133.	02-04015	मैसर्स इन्फोटेक कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	164.	02-4207	मैसर्स गुड होप (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
134.	02-06114	मैसर्स अशुतोश टोबाको कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	165.	13-06633	मैसर्स दीन वे हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड
135.	02-06142	मैसर्स इवियन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	166.	02-06524	मैसर्स अप्पाशा इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
136.	23-05308	मैसर्स शिंगफो वैली टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	167.	23-06986	मैसर्स सीडॉग टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
137.	02-05156	मैसर्स कजिरंगा टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	168.	02-05088	मैसर्स जगन्नाथ बिल्डर्स व डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
138.	02-5113	मैसर्स रायल मिशन गार्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	169.	14-01802	मैसर्स मोकोकचुंग वुड इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
139.	19-03188	मैसर्स त्रिपुरा मोटर व जनरल फाईनान्स लिमिटेड	170.	02-06266	मैसर्स असाम इन्टरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
140.	02-02262	मैसर्स मनीष मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	171.	13-06099	मैसर्स जे. एम. परफ्युमेरी व एसिन्शियल आईल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
141.	02-04917	मैसर्स बी सी पी ट्रेडिंग कम्पनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	172.	02-06436	मैसर्स नवोजीत टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
142.	02-05963	मैसर्स कामरूप पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड	173.	02-02888	मैसर्स असाम कन्सेन्ट्रेटेड ट्यूरीजम व इण्डस्ट्रियल प्रमोशन लिमिटेड
143.	56-06158	मैसर्स मिजोरम रोड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	174.	02-04730	मैसर्स अन्तरूपा प्रिन्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
144.	02-05524	मैसर्स रुक्मिणी कम्प्यूटर पेरीफेरल्स प्राइवेट लिमिटेड	175.	02-04651	मैसर्स के. आर. पी. कम्प्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
145.	14-02207	मैसर्स डिझिट वैली फोरेस्ट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	176.	02-02312	मैसर्स बजरंग राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
146.	14-02102	मैसर्स नार्थ ईस्ट वुड इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	177.	02-05372	मैसर्स स्ट्याक प्लस प्राइवेट लिमिटेड
147.	02-06887	मैसर्स प्रोटेज इनफार्मेशन टेक्नालोजी प्राइवेट लिमिटेड	178.	02-05218	मैसर्स अझूरी टेक्नालाजीस प्राइवेट लिमिटेड
148.	02-06886	मैसर्स ब्रह्मपुत्रा वैली ट्रेड व इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	179.	02-06450	मैसर्स ट्रान्शेण्ड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
149.	02-05837	मैसर्स लक्साषा एन्टरप्राइजेस लिमिटेड	180.	02-06980	मैसर्स हिमगिरी ड्रग्स व शर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
150.	13-05161	मैसर्स मेलिंग व सूना प्राइवेट लिमिटेड	181.	02-03836	मैसर्स औटेन्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
151.	02-02010	मैसर्स श्वासितक कार्मशियल प्राइवेट लिमिटेड	182.	13-05222	मैसर्स नरपुह सिमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
152.	02-04820	मैसर्स खौड़ एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड	183.	02-01191	मैसर्स वराट टिम्बर असाम प्राइवेट लिमिटेड
			184.	02-07132	मैसर्स एड्युकोम इनफार्मेशन टेक्नालाजीस पयोनीयर प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
185. 02-02552	मैसर्स जीबाकान्ता प्रोपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड	
186. 02-04838	मैसर्स ओश्वीन हास्पिटल व रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	
187. 13-02199	मैसर्स एसपीडीसी इन्जीनीयर्स प्राइवेट लिमिटेड	
188. 02-05946	मैसर्स शुभम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	
189. 13-06747	मैसर्स जे डी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	
190. 13-04737	मैसर्स एक्स एल (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	
191. 23-04722	मैसर्स आरएसपी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	
192. 02-02443	मैसर्स टीएसएल प्रागयोतीष पोलिस्टर्स लिमिटेड	
193. 02-02635	मैसर्स राज डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	
194. 02-04916	मैसर्स सिटी एन्टरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड	
195. 14-03261	मैसर्स पी. एस. बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	
196. 14-05149	मैसर्स बाहुबली ट्रेडिंग कम्पनी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	
197. 02-04660	मैसर्स फाइन स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड	
198. 13-02505	मैसर्स बाब्री प्लाइवुड्स लिमिटेड	
199. 02-01355	मैसर्स स्टोरवेल प्राइवेट लिमिटेड	
200. 02-04550	मैसर्स ज्ञान इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	

1	2	3
201. 02-05033	मैसर्स जम्बो फार्म प्राइवेट लिमिटेड	
202. 02-04620	मैसर्स तिरुपती टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	
203. 02-06892	मैसर्स डीजी एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड	
204. 14-02302	मैसर्स हनालन्ग वुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	
205. 02-04338	मैसर्स वेनगार्ड इण्डिया फाइनान्स लिमिटेड	
206. 02-05022	मैसर्स पेरामाउन्ट इन्जीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	
207. 02-00425	मैसर्स जोरहट मोटर कार कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	
208. 02-00977	मैसर्स न्यू फार्मोसी प्राइवेट लिमिटेड	
209. 02-02197	मैसर्स वी श्री कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	
210. 02-02067	मैसर्स के. जी. इन्टरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड	
211. 02-02196	मैसर्स विकटरी फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड	
212. 02-03471	मैसर्स इक्सयान इलेक्ट्रोनिक्स व ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	
213. 02-02632	मैसर्स मझेगाह टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	
214. 02-01832	मैसर्स कार्बो इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	

कोराड़ा आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर-पूर्व क्षेत्र

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 30th September 2005

No. A-19011/5/2001-Admn. I.—Shri Jagdish Singh, IFoS (MT: 87), who was on central deputation as Joint Secretary, UPSC (Director Level) and had been pursuing a long term training course, viz. MBA in Public Service at University of Birmingham (UK) from 4th October, 2004 to 30th September, 2005 stands relieved from the Commission's Office w.e.f. the afternoon of 30th September, 2005.

2. Shri Jagdish Singh is directed to report to his parent cadre, i.e. Principal Chief Conservator of Forests, Government of Tripura, Agartala.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

No. A-38012/2/2005-Admn.I.—The President is pleased to permit Shri Rajendra Bist, CSS, working as Deputy Secretary in UPSC to retire from Government service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th September, 2005.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 7th October 2005

No. DPPERS.1/2005/0141/3/3/96.—The President is pleased to appoint Ms. Beena Raizada, Public Prosecutor, CBI as Senior Public Prosecutor in the CBI with effect from the afternoon of 29.07.2005 and until further orders.

S. D. BAIJAL
Admn. Officer (Pers.)

No. DP Pers.1/2005/0142/3/23/2003.—Services of Shri Shashi Kant Verma, Asstt. Prosecuting Officer, Govt. of U.P., posted in CBI as Public Prosecutor on deputation basis, are placed back at the disposal of Directorate of Prosecution, Govt. of UP on premature repatriation with effect from 30.09.2005(AN).

S. D. BAIJAL
Admn. Officer (Pers.)

The 13th October 2005

No. DPPERS.1/2005/0143/3/50/96.—The President is pleased to appoint Shri Chandra Datta, Senior Public Prosecutor, CBI as Dy. Legal Adviser in the CBI with effect from the forenoon of 29.09.2005 and until further orders.

S. D. BAIJAL
Admn. Officer (Pers.)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 10th October 2005

No. 2/36/05/8117-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Dal Chand, Section Officer as Under Secretary in the Commission in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in officiating capacity on ad-hoc basis for a period of three months with effect from 05.10.2005 (F/N) or until further orders, whichever is earlier.

MANGE LAL
Officer on Special Duty
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE GENERAL, CRPF)

New Delhi-110003, the 5th October 2005

No. O.II.3293/2005-DC-Pers-I.—Shri Moti Ram, Dy. Commandant (IRLA-3293) of 63/82 Bn (under treatment at Base Hospital-1, CRPF, New Delhi and was on medical rest at his home) has expired on 20.09.2005 at 2115 hrs. Accordingly, his name stands deleted from the strength of the force with effect from 20.09.2005 (AN).

J. N. SHARMA
Addl. DIGP (Pers-1)

DIRECTORATE OF COORDINATION
(POLICE WIRELESS)

New Delhi-3, the 6th October 2005

No. A-17011/37(B-54)/2004-Admn.I.—Shri Bijoy Krishna Mitra, Joint Director of this Directorate has retired from Government service on attaining the age of superannuation on 30.09.2005 (AN).

KAMALESH DEKA
Director Police Telecommunications

The 7th October 2005

No. A-17011/35(M-68)/2004-Admn.I.—Shri Magandev Singh Popli, Additional Director of this Directorate has retired from Government service on attaining the age of superannuation on 30.09.2005 (AN).

KAMALESH DEKA
Director Police Telecommunications

No. A-17011/34(R-68)/2004-Admn.I.—Shri Rajendra Prakash Gupta, Extra Assistant Director of this Directorate has retired from Government service on attaining the age of superannuation on 30.09.2005 (AN).

KAMALESH DEKA
Director Police Telecommunications

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
KERALA

Thiruvananthapuram, the 13th October 2005

No. O.E./E&C/EIVP/110.—The following Officials of
IA&AD retired from service:—

Sl. No.	Name	Designation	Date of retirement
1.	Smt. K. Accammal	Sr. Accounts Officer Main Office, Trivandrum	30.09.2005(AN) (Superannuation)
2.	Sri T. A. Sebastian	Accounts Officer Main Office, Trivandrum	30.09.2005(AN) (Superannuation)
3.	Smt. S. Rajalakshmi	Asstt. Accounts Officer, Main Office, Trivandrum	30.09.2005(AN) (Superannuation)

M. RAJAN
Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF MINES

(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 30th September 2005

No. A-19011/343/2001-Estt.A.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Smt. B. R. Ramteke, Asstt. Ore Dressing Officer has been promoted to the post of Deputy Ore Dressing Officer in Indian Bureau of Mines, Ajmer w.e.f. 23.08.2005 (FN).

S. K. BATAV
Sr. Admn. Officer
for Controller General

Nagpur, the 4th October 2005

No. A-19011/393/2004-Estt.APP.—Shri V. S. Murthy, Senior Mining Geologist, Indian Bureau of Mines, has relinquished charge on the Afternoon of 30.09.2005 on attaining the age of superannuation.

A. N. NANDANWAR
Asstt. Admn. Officer

No. A-19011/405/2005-Estt.APP.—Shri S. W. Kherdekar, Dy. Mineral Economist (I), Indian Bureau of Mines, has relinquished charge on the Afternoon of 30.09.2005 on attaining the age of superannuation.

A. N. NANDANWAR
Asstt. Admn. Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 30th September 2005

No. 20/3(2)/2004-CCS/35.—The President is pleased to

appoint Shri D. Narayanan Nair, Chief Administrative Officer (Scale of pay Rs. 12000—16500/-), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department as Head, Personnel Division (Scale of pay Rs. 12000—16500/-) in the same Centre with effect from the forenoon of 08.09.2005 until further orders.

SOBHA DEVI N.
Under Secy.

(VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE)

Kolkata-700064, the 28th September 2005

No. VECC/Prom.(Aug.)/2005/2758.—The President of India is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata as Scientific Officer/F (Grade Rs. 14300-400-18300/-) in the same Centre with effect from the forenoon of August 01, 2005 in an officiating capacity, until further orders:—

Sl. No.	Name	Post held at Present	Grade
1.	Sh. TK Chattopadhyay	Scientific Officer (E)	Rs. 12000-375-16500/-
2.	Sh. MS Dey	Scientific Officer (E)	Rs. 12000-375-16500/-

N. SRINIVASA RAO
Chief Administrative Officer

(DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT)

Mumbai-400094, the 2005

No. DCSE/A/9(230)/2005-Rectt/Vol.VI/1054.—Director, Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri. C. Samantaray, Assistant Personnel Officer as Administrative Officer-II in this Directorate in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000/- from the forenoon of 21.09.2005 until further orders.

A. K. V. NAIR
Administrative Officer-III

(BOARD OF RADIATION & ISOTOPE TECHNOLOGY)

Mumbai-400705, the 13th October 2005

No. BR/951/024/1672.—Shri P. Madhusoodanan relinquished charge of the post of Scientific Officer/Engineer Grade-H on 31.08.2005 (AN) consequent on superannuation.

J. K. GHOSH
Chief Executive

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ashish Exports Imports Private Limited

Kanpur-208001, the 13th October 2005

No. 560(3)/SES-5605/9282/3702.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ashish Exports Imports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Santosh Financial Services Limited

Kanpur-208001, the 13th October 2005

No. 560(3)/SES-5605/17759/3706.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Santosh Financial Services Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Taparia Enterprises Private Limited

Kanpur-208001, the 14th October 2005

No. 560(5)/LC/SES-20773/3718.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Taparia Enterprises Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and is dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shiva Alum Products Private Limited

Kanpur-208001, the 14th October 2005

No. 560(3)/SES-5605/20674/3726.—Notice is hereby

given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shiva Alum Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Akutri Advertising & Marketing Private Limited

Kanpur-208001, the 14th October 2005

No. 560(3)/SES-5605/20969/3730.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Akutri Advertising & Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Akutri Films India Private Limited

Kanpur-208001, the 14th October 2005

No. 560(3)/SES-5605/20971/3734.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Akutri Films India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Malayad Pharmaceuticals Private Limited

Kanpur-208001, the 14th October 2005

No. 560(3)/LC/26344/3738.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Malayad Pharmaceuticals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. P. G. A. Stock Brokers Private Limited

Kanpur-208001, the 14th October 2005

No. 560(3)/LC/25018/3740.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. P. G. A. Stock Brokers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mattei Finance India Limited

Kanpur-208001, the 17th October 2005

No. 560(3)/SES-5605/21188/3743.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mattei Finance India Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhowmik Engineering Constructions Company
Private Limited

Kanpur-208001, the 17th October 2005

No. 560(3)/SES-5605/5621/3747.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhowmik Engineering Constructions Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. N. H. Transformers Private Limited

Kanpur-208001, the 17th October 2005

No. 560(3)/SES-5605/23458/3751.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months

from the date hereof the name of M/s. N. H. Transformers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Futuron Synergie Developers Private Limited

Kanpur-208001, the 18th October 2005

No. 560(3)/LC/29808/3765.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Futuron Synergie Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. WIG & Sons (Properties) Private Limited

Kanpur-208001, the 18th October 2005

No. 560(3)/LC/12165/3787.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. WIG & Sons (Properties) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. GEE N GEE International Private Limited

Kanpur-208001, the 18th October 2005

No. 560(3)/SES-5605/22607/3789.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. GEE N GEE International Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kavita Chemicals Private Limited

Kanpur-208001, the 18th October 2005

No. 560(3)/SES-5605/10408/3793.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kavita Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pious Green Forest Limited

Kanpur-208001, the 18th October 2005

No. 560(3)/SES-5605/23365/3797.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pious Green Forest Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vibha Food Products Private Limited

Kanpur-208001, the 18th October 2005

No. 560(3)/SES-5605/4157/3801.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vibha Food Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nara Food Products Private Limited

Kanpur-208001, the 18th October 2005

No. 560(3)/SES-5605/4156/3805.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nara Food Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Century Canvas Footwears Private Limited

Kanpur-208001, the 18th October 2005

No. 560(3)/SES-5605/8682/3809.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Century Canvas Footwears Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Madhuban Food Products Private Limited

Kanpur-208001, the 18th October 2005

No. 560(3)/SES-5605/4155/3813.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Madhuban Food Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Berina Marketing Private Limited

Kolkata-700020, the October 2005

No. IPC/560/Master File-Vol.I.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Berina Marketing Private Limited has this day been struck off from the register of Registrar of Companies and is dissolved.

NAUBAT SINGH
Dy. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Shillong, the 14th October 2005

No. ROC/SH/SES/2005/560(3)/2766.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, unless any objection is received by the undersigned within 30 days from the date of publication of this notice, the names of the following Companies, shall be struck off from the Register of Companies, who have applied as such under simplified exit scheme, 2005:—

Sl. No.	No. of Company	Name of the Company
1	2	3
1.	02-3721	M/s. Eastern Link Pvt. Ltd.
2.	12-04661	M/s. Loktak Industries Pvt. Ltd.
3.	02-2977	M/s. North Eastern Polypack Pvt. Ltd.
4.	02-4976	M/s. Ambalika Hire Purchase Company (India) Pvt. Ltd.
5.	02-3789	M/s. BDR Lime & Chemicals Pvt. Ltd.
6.	14-6785	M/s. Yanthan & Associates Pvt. Ltd.
7.	58-3167	M/s. Zoram Galvanised Corrugation Industry Pvt. Ltd.
8.	02-2066	M/s. Getwel Syringes Ltd.
9.	02-1414	M/s. Bajrangbali Roller Flour Mills Ltd.
10.	02-1355	M/s. Bajrangballi Steel Company Ltd.
11.	02-4967	M/s. Himalaya India Pvt. Ltd.
12.	13-6999	M/s. Elena Developers Pvt. Ltd.
13.	13-6998	M/s. North East Hospital Pvt. Ltd.
14.	13-6930	M/s. FW Ferro Tech. Pvt. Ltd.
15.	02-3035	M/s. G. K. Construction Pvt. Ltd.
16.	02-3887	M/s. Padam Carrier & Traders Pvt. Ltd.
17.	02-5207	M/s. Tea Manas Warehouse Pvt. Ltd.
18.	23-4169	M/s. Bhismak Ply Pvt. Ltd.
19.	23-3636	M/s. Ehisiku Tea Company Pvt. Ltd.
20.	02-4738	M/s. Chitrakoot Builders Pvt. Ltd.
21.	02-5265	M/s. Arohan Tea Company Pvt. Ltd.
22.	02-4910	M/s. Green Forest India Pvt. Ltd.
23.	02-4167	M/s. Sierra Products Pvt. Ltd.
24.	02-6221	M/s. Fair View Graphics Pvt. Ltd.
25.	02-5181	M/s. Touch Line Mercantiles Pvt. Ltd.
26.	02-5126	M/s. Evergreen Traders Pvt. Ltd.

1	2	3
27.	02-6384	M/s. Barpeta Road Cold Storage Pvt. Ltd.
28.	02-4530	M/s. Magnolia Travels & Communication Pvt. Ltd.
29.	02-7103	M/s. Trajet Travels Pvt. Ltd.
30.	02-4091	M/s. North East Ophthalmic Pvt. Ltd.
31.	02-4147	M/s. Sheema Chemicals & Allied Products Pvt. Ltd.
32.	02-2358	M/s. Mayur Iron & Steel Company Pvt. Ltd.
33.	02-2406	M/s. Polypack Industries Pvt. Ltd.
34.	02-7577	M/s. Kesar Constructions Pvt. Ltd.
35.	02-6174	M/s. Cemtech & Real Estate Developers Pvt. Ltd.
36.	02-3114	M/s. Rockmans Ply Pvt. Ltd.
37.	02-5321	M/s. Shivam Tea Pvt. Ltd.
38.	02-4453	M/s. Ambica Veneers Pvt. Ltd.
39.	230-4161	M/s. Mopaya Timbers Pvt. Ltd.
40.	13-06222	M/s. Source Soft (India) Pvt. Ltd.
41.	02-7083	M/s. Ankit Couching Institute Pvt. Ltd.
42.	02-7000	M/s. Ramdhenu Marketing India Pvt. Ltd.
43.	02-4329	M/s. Mercury Systems Pvt. Ltd.
44.	02-4562	M/s. Garima Transport Pvt. Ltd.
45.	13-6679	M/s. Hamilton Entertainment Pvt. Ltd.
46.	13-6777	M/s. DTLJ Constructions & Suppliers Pvt. Ltd.
47.	02-5151	M/s. Biznet Express Pvt. Ltd.
48.	03-4817	M/s. North Kamrup Albatross Investment Company Ltd.
49.	02-3242	M/s. V. B. Ghuwakwala & Sons Pvt. Ltd.
50.	02-4601	M/s. Shubham Poly Plastic Products Pvt. Ltd.
51.	14-6562	M/s. Atoto Tea Plantation Pvt. Ltd.
52.	02-3025	M/s. Sunbeam Diesels Pvt. Ltd.
53.	02-5426	M/s. City Maternity Centre Pvt. Ltd.
54.	02-3063	M/s. Newage Diesels Pvt. Ltd.
55.	13-5320	M/s. Colonel Shishupal Security Consultancy (Services) Pvt. Ltd.
56.	02-4491	M/s. P. D. Infrastructure Development Company Ltd.

1	2	3
57.	02-3895	M/s. Dwijachitra Housing Pvt. Ltd.
58.	23-2591	M/s. Arunachal Resin Products Pvt. Ltd.
59.	14-3638	M/s. Preet Exporters Pvt. Ltd.
60.	23-5190	M/s. Lopon Tea Company Pvt. Ltd.
61.	02-1545	M/s. Mefi (India) Pvt. Ltd.
62.	02-6036	M/s. Dhubri Diagnostic Centre Pvt. Ltd.
63.	02-2985	M/s. Raj Marketing Pvt. Ltd.
64.	02-3556	M/s. Laxmi Paper Cones & Tubes Pvt. Ltd.
65.	02-3557	M/s. Laxmi Paper Corrugateel Box Manufactures Pvt. Ltd.
66.	02-1142	M/s. M. K. Guha & Sons Pvt. Ltd.
67.	02-6241	M/s. Sree Radhe Shyam Sales Pvt. Ltd.
68.	13-6191	M/s. Lodri Lyngdoh Saw Cum
69.	02-6020	M/s. Gold Link Trading & Services Pvt. Ltd.
70.	02-2651	M/s. ACB Chemicals & Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
71.	14-2008	M/s. Konyak Forest Products Pvt. Ltd.
72.	02-6148	M/s. North Eastern Resource Survey & Consultancy Pvt. Ltd.
73.	02-2890	M/s. Omega Jorhat Press Pvt. Ltd.
74.	02-2711	M/s. Sentinel Daily Pvt. Ltd.
75.	02-4264	M/s. Anupam Shares & Securities (P) Ltd.
76.	14-2320	M/s. Virgin Forest Products Pvt. Ltd.
77.	14-2167	M/s. Blue Hill Lumberers Pvt. Ltd.
78.	14-1399	M/s. Dimapur Roller Flour Mills Pvt. Ltd.
79.	02-1810	M/s. Pekoe India Pvt. Ltd.
80.	02-1367	M/s. Offset Printer Pvt. Ltd.
81.	02-3040	M/s. Nilachal Hotel Pvt. Ltd.
82.	12-4662	M/s. Loktak Finance & Investment Pvt. Ltd.
83.	13-5161	M/s. Meling & Suna Pvt. Ltd.
84.	02-05644	M/s. Royal (India) Finance Pvt. Ltd.
85.	02-5029	M/s. Kamrupa Finance & Investment Company Pvt. Ltd.
86.	02-3384	M/s. North-East Fisheries Pvt. Ltd.
87.	02-1868	M/s. Bharat Roadways Corporation Pvt. Ltd.

1	2	3
88.	02-5336	M/s. Swati Polymers Pvt. Ltd.
89.	02-5141	M/s. Assam Engineer's Co. Pvt. Ltd.
90.	02-5352	M/s. Padma Bahwani Real Estate Pvt. Ltd.
91.	02-5359	M/s. Shree Mahamaya Tea Co. Pvt. Ltd.
92.	02-3802	M/s. Kiran Nirman India Pvt. Ltd.
93.	02-3400	M/s. Pincha Finance & Investment Pvt. Ltd.
94.	02-3335	M/s. Maha Megha Mellmowars Pvt. Ltd.
95.	12-2892	M/s. Imphal Agro Industrial Development Company Pvt. Ltd.
96.	02-2006	M/s. Polyester Textile Ltd.
97.	02-2949	M/s. DT India Pvt. Ltd.
98.	02-3857	M/s. Puspak Tea Pvt. Ltd.
99.	02-5373	M/s. Midas Tea & Farms Pvt. Ltd.
100.	02-5864	M/s. Tea Top (India) Pvt. Ltd.
101.	02-2110	M/s. Rameswarpur Tea & Industries Pvt. Ltd.
102.	23-4504	M/s. Nampong Tea Company Pvt. Ltd.
103.	02-6435	M/s. Akshaya Cosmetics Pvt. Ltd.
104.	02-4613	M/s. Eicon Engineers Pvt. Ltd.
105.	02-3299	M/s. Assam Krishna Hatchries Pvt. Ltd.
106.	19-6456	M/s. Tripureswari Marketing Pvt. Ltd.
107.	02-5082	M/s. Plutus Agro Plantation Pvt. Ltd.
108.	13-2663	M/s. Hills Land Investment & Finance Company Ltd.
109.	02-1460	M/s. Kamrup Paper Mills Ltd.
110.	02-5764	M/s. MRB Petropoo Pvt. Ltd.
111.	02-4563	M/s. PMB Petrodrillers Pvt. Ltd.
112.	02-5784	M/s. MRB Enterprises Pvt. Ltd.
113.	02-3402	M/s. Globtik Carriers Pvt. Ltd.
114.	02-4686	M/s. Hortus India Pvt. Ltd.
115.	02-3815	M/s. Sri Ganesh Cast Ltd.
116.	02-4210	M/s. Pushpak Travels Pvt. Ltd.
117.	20-2523	M/s. Tinsukia Tradesmen Pvt. Ltd.
118.	02-4622	M/s. Sriram Wood Products Pvt. Ltd.
119.	02-2564	M/s. Patkai Mining & Engineering Co. Pvt. Ltd.
120.	14-2203	M/s. Empire Wood Crafts Pvt. Ltd.

1	2	3	1	2	3
121.	14-2236	M/s. Tiru Plywood Products Pvt. Ltd.	151.	02-2010	M/s. Swastik Commercial Pvt. Ltd.
122.	02-5111	M/s. Ajoli Tea Company Pvt. Ltd.	152.	02-4820	M/s. Khound Associated Pvt. Ltd.
123.	02-4052	M/s. Govinda Diary Ltd.	153.	23-2224	M/s. Kameng Steel Works Pvt. Ltd.
124.	02-3281	M/s. Reliance India Finance & Leasing Ltd.	154.	02-3650	M/s. G. K. Hospitals Pvt. Ltd.
125.	02-4101	M/s. Magdel Computers Pvt. Ltd.	155.	02-2345	M/s. Vardha Veneers Pvt. Ltd.
126.	02-5916	M/s. Millenium Progressive Pvt. Ltd.	156.	14-2301	M/s. Kal Veneers Pvt. Ltd.
127.	13-5917	M/s. Millenium Trading Pvt. Ltd.	157.	02-6066	M/s. Life Entertainment Pvt. Ltd.
128.	14-5583	M/s. Siedze Finance & Investment Pvt. Ltd.	158.	02-6598	M/s. Korus Trading Co. Pvt. Ltd.
129.	02-4279	M/s. NRB Plantations Pvt. Ltd.	159.	02-3361	M/s. Bhergaon Tea Co. Pvt. Ltd.
130.	14-3575	M/s. Preet Finance & Investment Co. Pvt. Ltd.	160.	12-5960	M/s. Team Marketing & Advertising Pvt. Ltd.
131.	02-5312	M/s. Avantika Projects & Finance Pvt. Ltd.	161.	02-5651	M/s. NE Marketing Services Pvt. Ltd.
132.	02-6064	M/s. Amarnath Fragrance Pvt. Ltd.	162.	02-5344	M/s. North Eastern Mercantile Pvt. Ltd.
133.	02-4015	M/s. Infotech Computers Pvt. Ltd.	163.	14-2038	M/s. Van Udyog Pvt. Ltd.
134.	02-6114	M/s. Ashutosh Tobacco Co. Pvt. Ltd.	164.	02-4207	M/s. Good Hope (India) Pvt. Ltd.
135.	02-6142	M/s. Evian Marketing Pvt. Ltd.	165.	13-6633	M/s. Deen Way Herbals Pvt. Ltd.
136.	23-5308	M/s. Singpho Valley Tea Co. Pvt. Ltd.	166.	02-6524	M/s. Appasa Infotech Pvt. Ltd.
137.	02-5156	M/s. Kazziranga Tea Co. Pvt. Ltd.	167.	23-6986	M/s. Shedong Tea Co. Pvt. Ltd.
138.	02-5113	M/s. Royal Mission Garments Pvt. Ltd.	168.	02-5088	M/s. Jagannath Builders & Developers Pvt. Ltd.
139.	19-3188	M/s. Tripura Motor & General Finance Ltd.	169.	14-1802	M/s. Mokokchung Wood Industries Pvt. Ltd.
140.	02-2262	M/s. Manish Marketing Pvt. Ltd.	170.	02-6266	M/s. Assam Entertainments Pvt. Ltd.
141.	02-4917	M/s. BCP Trading Co. (India) Pvt. Ltd.	171.	13-6099	M/s. J. M. Perfumery & Essential Oil Company Pvt. Ltd.
142.	02-5963	M/s. Kamrup Packaging Pvt. Ltd.	172.	02-6436	M/s. Navojeet Tea Co. Pvt. Ltd.
143.	58-6158	M/s. Mizoram Road Transport Co. Pvt. Ltd.	173.	02-2888	M/s. Assam Concentrated Tourism & Industrial Promotion Pvt. Ltd.
144.	02-5524	M/s. Rukmini Computer Peripherals Pvt. Ltd.	174.	02-4730	M/s. Antarupa Printers Pvt. Ltd.
145.	14-2207	M/s. Tizit Valley Forest Products Pvt. Ltd.	175.	02-4651	M/s. K. R. P. Communication Pvt. Ltd.
146.	14-2102	M/s. North East Wood Industries Pvt. Ltd.	176.	02-2312	M/s. Bajrang Rice Mills Pvt. Ltd.
147.	02-6887	M/s. Protege Information Technology Pvt. Ltd.	177.	02-5372	M/s. Stock Plus Pvt. Ltd.
148.	02-6886	M/s. Brahmaputra Valley Trade & Engineers Pvt. Ltd.	178.	02-5218	M/s. Azury Technologies Pvt. Ltd.
149.	02-5837	M/s. MS Laxasha Enterprise Ltd.	179.	02-6450	M/s. Transcend Research Pvt. Ltd.
150.	13-5161	M/s. Meling and Suna Pvt. Ltd.	180.	02-6980	M/s. Himgiri Drugs & Surgicals Pvt. Ltd.
			181.	02-3836	M/s. Autens (India) Pvt. Ltd.
			182.	13-5222	M/s. Narpuh Cements Ltd.
			183.	02-1191	M/s. Varat Timber Assam Pvt. Ltd.

1	2	3
184.	02-7132	M/s. Educom Information Technologies Pioneer Pvt. Ltd.
185.	02-2552	M/s. Jibakanta Properties Pvt. Ltd.
186.	02-4838	M/s. Oswin Hospital & Research Centre Ltd.
187.	13-2199	M/s. SPDC Engineers Pvt. Ltd.
188.	02-5947	M/s. Subham Products Pvt. Ltd.
189.	13-6747	M/s. Jay Dee Products Pvt. Ltd.
190.	13-4737	M/s. XL (India) Pvt. Ltd.
191.	23-4722	M/s. RSP Builders Pvt. Ltd.
192.	02-2443	M/s. TSL Praggyotish Polysters Ltd.
193.	02-2635	M/s. Raj Dairy Products Pvt. Ltd.
194.	02-4916	M/s. City Enterprise Pvt. Ltd.
195.	14-3261	M/s. P. S. Builders Pvt. Ltd.
196.	14-5149	M/s. Bahubali Trading Co. India Pvt. Ltd.
197.	02-4660	M/s. Fine Steels Pvt. Ltd.
198.	13-2505	M/s. Bawri Plywoods Ltd.
199.	02-1355	M/s. Storewell Pvt. Ltd.
200.	02-4550	M/s. Gyan India Pvt. Ltd.

1	2	3
201.	02-5033	M/s. Jumbo Farm Pvt. Ltd.
202.	02-4620	M/s. Tirupati Tea Co. Pvt. Ltd.
203.	02-6892	M/s. DG Associated Pvt. Ltd.
204.	14-2302	M/s. Hunglung Wood Products Pvt. Ltd.
205.	02-4338	M/s. Vanguard India Finance Ltd.
206.	02-5022	M/s. Paramount Engineering Co. Pvt. Ltd.
207.	02-0425	M/s. Jorhat Motor Car Co. Pvt. Ltd.
208.	02-0977	M/s. New Pharmacy Pvt. Ltd.
209.	02-2197	M/s. We Three Co. Pvt. Ltd.
210.	02-2067	M/s. K. G. Enterprise Pvt. Ltd.
211.	02-2196	M/s. Victory Farming Pvt. Ltd.
212.	02-3471	M/s. Ixion Electronics & Trading Co. Pvt. Ltd.
213.	02-2632	M/s. Mazengah Tea Co. Pvt. Ltd.
214.	02-01832	M/s. Cabro India Pvt. Ltd.

K. ANANDA RAO
Registrar of Companies
N. E. Region